



# POLICE COMMISSIONERATE



## GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 30.06.2021

1-थाना फेस-3, नोएडा पुलिस द्वारा 01 शातिर मोबाइल फोन चोर गिरफ्तार, कब्जे से 05 मोबाइल फोन व एक अवैध चाकू बरामद।

थाना फेस 3 पुलिस द्वारा दिनांक 30.06.2021 को पर्थला चौक से लगभग 100 कदम हिण्डन पुल की तरफ रोड के किनारे से एक शातिर मोबाइल चोर सचिन उर्फ दाता पुत्र नवीश निवासी गढ़ी चौखण्डी थाना फेस-3, नोएडा, जनपद गौतमबुद्ध नगर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 05 मोबाइल फोन चोरी के व 01 अवैध चाकू बरामद किया गया है।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:**

सचिन उर्फ दाता पुत्र नवीश निवासी गढ़ी चौखण्डी थाना फेस-3, नोएडा, जनपद गौतमबुद्ध नगर

## पंजीकृत अभियोग /आपराधिक इतिहास का विवरण:

- 1.मु0अ0सं0 624/21 धारा 414 भादवि थाना फेस-3 नोएडा
- 2.मु0अ0सं0 625/21 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना फेस-3 नोएडा
- 3.मु0अ0सं0 617/21 धारा 380/411 भादवि थाना फेस-3 नोएडा
- 4.मु0अ0सं0 609/19 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना फेस-3 नोएडा
- 5.मु0अ0सं0 610/19 धारा 411/414/482 भादवि थाना फेस-3 नोएडा

## बरामदगी का विवरण:

- 1.05 अदद मोबाइल फोन
2. एक चाकू नाजायज



## 2- थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा आत्महत्या के लिये प्रेरित करने के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार ।

थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा दिनांक 30.06.2021 को आत्महत्या के लिये प्रेरित करने के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त 1. कमल पुत्र रणवीर नि0- ग्राम देवला थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर 2. अभियुक्ता सुनीता पत्नी रणवीर नि0- उपरोक्त को ग्राम देवला से अभियुक्तगणों के निवास स्थान से गिरफ्तार किया गया है।

## **गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:**

1. कमल पुत्र रणवीर नि०- ग्राम देवला थाना सूरजपुर जनपद गौतमबुद्धनगर
2. सुनीता पत्नी रणवीर नि० ग्राम देवला थाना सूरजपुर जनपद गौतमबुद्धनगर

## **अभियोग का विवरण :**

मु०अ०स० 458/21 धारा 306,323,504,506 भादवि थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर

## **3- थाना सेक्टर 20 पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार।**

थाना सेक्टर 20 पुलिस द्वारा दिनांक 29.06.2021 को मु०अ०स० 672/2021 धारा 420,406,304,120बी भादवि में वांछित चल रहे अभि० डा० बुलन्द अख्तर पुत्र मोहम्मद अय्युब निवासी बी-256 सेक्टर 19 नोएडा थाना सेक्टर 20 नोएडा गौतमबुद्ध नगर को दुकान न०- 1386 तिलक बाजार थाना लाहोरी गेट दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है।

## **घटना का विवरण:**

अभियुक्त द्वारा मुकदमा उपरोक्त वादी के भाई की किडनी ट्रान्सप्लान्ट व किडनी दिलाने के नाम पर पैसे लेकर धोखाधड़ी की गई ।

## **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

1. डा० बुलन्द अख्तर पुत्र मोहम्मद अय्युब निवासी बी-256 सेक्टर 19 नोएडा थाना सेक्टर 20 नोएडा गौतमबुद्धनगर

## **अभियोग का विवरण-**

1. मु०अ०स० 672/21 धारा 420,406,304,120बी भादवि थाना सेक्टर 20 गौतमबुद्धनगर

#### 4- थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा अनैतिक देह व्यापार व दुष्कर्म के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा दिनांक 30.06.2021 को मु0अ0सं0 62/2017 धारा 363, 372,373,376,120बी भादवि व 5/9 अनैतिक देह व्यापार अधि0 व 12 पोक्सो अधि0 के वांछित अभियुक्त 1. पवन उर्फ सूरज पुत्र शंकर उर्फ प्रेम शंकर नि0 ग्राम शालाबाद थाना छतारी जिला बुलन्दशहर वर्तमान निवासी भारद्वाज कालोनी थाना अनुपशहर जिला बुलन्दशहर व 2.अभियुक्ता गीता उर्फ आरती पत्नी पवन उर्फ सूरज ग्राम शालाबाद थाना छतारी जिला बुलन्दशहर वर्तमान निवासी भारद्वाज कालोनी थाना अनुपशहर जिला बुलन्दशहर को उनके निवास स्थान से गिरफ्तार किया गया है।

#### घटना का विवरण-

अभियुक्तों द्वारा दिनांक 25.01.2016 से 15.01.2017 के बीच अपने पडोस में रहने वाली मुकदमा उपरोक्त की वादिया की 04 पुत्रियों को देह व्यापार करने वाले अभियुक्तों को बेचने का अपराध कारित किया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना सूरजपुर पर मु0अ0सं0 62/2017 धारा 363,372,373,376,120बी भादवि व 5/9 अनैतिक देह व्यापार अधि0 व 12 पोक्सो अधि0 पंजीकृत किया गया था।

#### गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. पवन उर्फ सूरज पुत्र शंकर उर्फ प्रेम शंकर नि0 ग्राम शालाबाद थाना छतारी जिला बुलन्दशहर वर्तमान निवासी भारद्वाज कालोनी 2 थाना अनुपशहर जिला बुलन्दशहर व
2. अभियुक्ता गीता उर्फ आरती पत्नी पवन उर्फ सूरज ग्राम शालाबाद थाना छतारी जिला बुलन्दशहर वर्तमान निवासी भारद्वाज कालोनी 2 थाना अनुपशहर जिला बुलन्दशहर

#### अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 62/2017 धारा 363,372,373,376,120बी भादवि व 5/9 अनैतिक देह व्यापार अधि0 व 12 पोक्सो अधि0 थाना सूरजपुर गौतमबुद्धनगर।